



## प्रीलमिस फैक्ट्स : 2 जनवरी, 2018

### महिला सशक्तीकरण के लिये ऑनलाइन पोर्टल 'नारी' To empower women inaugurate an online portal NARI

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women & Child Development) द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल 'नारी' (NARI) शुरू किया गया है। इस पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ही विकसित भी किया गया है।

#### प्रमुख बंदि

- इस पोर्टल के माध्यम से महिलाएँ उनके संदर्भ में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और पहलों के वषिय में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकती हैं।
- इन सारी सूचनाओं को एक स्थान पर सुलभ कराने के उद्देश्य से 'नारी' पोर्टल में महिलाओं के कल्याण के लिये चलाई जा रही तकरीबन 350 सरकारी योजनाओं से संबंधित सभी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं।
- इतना ही नहीं इस पोर्टल पर वभिन्न मंत्रालयों/वभागों के लिये महत्त्वपूर्ण लकि भी दिये गए हैं।
- 'नारी' पोर्टल में महिलाओं के जीवन से संबंधित वभिन्न मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है।
- इस पर पोषण, स्वास्थ्य जाँच, बीमारी, नौकरी, साक्षात्कार, नविश और बचत सलाह, महिलाओं के खलिाफ अपराध, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने वालों के नम्बर, गोद लेने की सरल प्रक्रिया आदि विषयों पर टपिस भी दिये गए हैं।

### एनजीओ और सविलि सोसायटी के लिये ई-संवाद पोर्टल e-Samvad portal for NGOs and Civil Societies

इस पोर्टल को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women & Child Development) एवं एनजीओ और सविलि सोसायटी के मध्य संवाद स्थापति करने के उद्देश्य से लाया गया है।

#### प्रमुख बंदि

- ई-संवाद पोर्टल के माध्यम से एनजीओ और सविलि सोसायटी अपने सुझाव, शकियात व प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इन सभी का जवाब देने के लिये मंत्रालय के उच्च अधिकारियों को इस पोर्टल से संबद्ध किया गया है।
- इसके पहले भी महिलाओं को समान अधिकार, आर्थिक अवसर, सामाजिक सहयोग, कानूनी सहायता, आवास आदि उपलब्ध कराने के लिये केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं।
- परंतु, अभी भी इन सभी योजनाओं के प्रता जागरूकता का अभाव है।
- उदाहरण के लिये, अधिकांश महिलाएँ इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि कठिन परिस्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिये 168 ज़िलों में 'वन स्टॉप सेंटर' उपलब्ध हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के पंजीयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है तथा कई राज्यों में लड़कियों की शकिया के लिये वित्तीय मदद दी जाती है।

### प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)

एम.एस.एम.ई. (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises - MSME) द्वारा प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme- (PMEGP) का कार्यान्वयन किया जा रहा है. यह नॉन-फॉर्म सेक्टरों में सूक्ष्म-उद्यमों (micro-enterprises) की स्थापना के माध्यम से स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से लाया गया एक प्रमुख क्रेडिट-लकिड सब्सिडी कार्यक्रम (credit-linked subsidy programme) है। इसके अंतर्गत क्षेत्रीय कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं को सहायता प्रदान करते हुए उन्हें रोज़गारोन्मुख बनाने का प्रयास किया जा रहा है

#### प्रमुख बंदि

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लाभार्थी परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जनि मनी सब्सिडी (margin money subsidy) का लाभ उठा सकते हैं।

- अनुसूचित जात/अनुसूचित जनजात/अन्य पछिड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला, पूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से विकलांग, एन.आर.आई, पहाड़ी और सीमा क्षेत्रों जैसे विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्र में 25% नगिधरति की गई है ।

## लरभ के पलतुर कौन-कौन हैं?

- 18 वर्ष से अधकि आयु कल कोई भी वयकत इस कर्यकरम के तहत लरभ कल पलतुर हलग ।
- वनररररर कषेतर में 10 लरख रुपए और वयपलर/सेवल कषेतर में 5 लरख रुपए से अधकि की ललगत वली परयलगनलओ की स्थलपनल के लयल लरभलरथयल के पलस कल-से-कल आठवी ककषल के स्तर की शैकषणकल यलगयतल हलनी वलहयल ।
- इसके अंतरगत परयलगनलओ की स्थलपनल करने हेतु अधकलतल ललगत सीमल वनरररर कषेतर के लयल 25 लरख रुपए और सेवा कषेतर के लयल 10 लरख रुपए नररधररतल की गई है ।

## वरतलनल स्थतल

- पी.एम.ई.जी.पी. यलगनल के तहत वरणतल सबसडल केंदर सरकर ववलरल परदलन की वलती है ।
- इस यलगनल कल वरष 2008-09 के दूरलन शुरू कयल गयल थल ।
- इसकी स्थलपनल के बलद से अभी तक कुल 4.47 लरख लघु उदयल की सलहलतल से 9326.01 करलड रुपए की मलरगनल मनी सबसडल की सलहलतल वलले अनुमलनतल 37.32 लरख वयकतयल कल 2017-18 (30.11.2017) तक रलगगर परदलन कयल वल वुकल है ।

## नलडल नकलल

- रलषुदरररर स्तर पर खलदी और गुरलमलदयलग आयलग (Khadi and Village Industries Commission - KVIC) इसकी नलडल एगेंसी है ।
- रलज्य/जललल स्तर पर के.वी.आई.सी., के.वी.आई.बी. और जललल उदयलग केंदर (District Industry Centres - DIC) के रलज्य कररललल करमशः 30:30:40 के अनुपलत में रलज्यल में कररलनवनन एगेंसयल के रूप में करररत है ।

## ऑनललन पलरुडल

- इसके अंतरगत एक ऑनललन पी.एम.ई.जी.पी. ई-पलरुडल भी शुरू कयल गयल है. इस पलरुडल कल 1 जुललई, 2016 में लॉनूच कयल गयल थल ।
- इस करररकरम के तहत संपूरण परकरयल कल वलसुतवकल समय (real time) के अनुरूप ऑनललन तैयलर कयल गयल है ।

## नलरकलंडम हलरनबलल की आबलदी में वृदुध

### Narcondam Hornbills Edge Back From the Brink

भलरतीय परलणी वजुगनल सरवेकषण (Zoological Survey of India - ZSI) ववलरल नलरकलंडम द्वीप पर नलरकलंडम हलरनबलल (Narcondam Hornbills) के परगनन जलडल और युवल पकषयल की अकूठी-खलसी आबलदी कल देखल गयल है ।

## परमुख बलदु

- जलवलयु परवलरतन और सकुडते परलकृतकल आवलसल के करण वलुपुत हलती परगलतयल के बीच लुपुतपरलल नलरकलंडम हलरनबलल (वैजुगनकल नलम Rhyticeros Narcondami) की आबलदी में वृदुधलपरलवलरण वलशषजुओ के लयल एक उतसलह कल वषलल है ।
- मखमली-कलले पंख और बडी पीली कलक वली नलरकलंडम हलरनबलल और इसकल आवलस स्थल 2014 में रकषल मंतरललल ववलरल अंडमलन और नकललबर के द्वीपल पर एक Listening Post कल स्थलपतल करने के परसुतलव के कलते ववलद कल केंदर बने हुए थे ।
- Listening Post वल सलमरकल पलसुड हलती है, जलल से रेडयल और मलइकुरलवेव संकलतल की नलगरलनी और उनमें नलहतल सुकनलओ कल वलशल्लेण कयल वलतल है ।
- कई परलवलरणवलदल और वलशषजुओ की आपुतुतयल के बलवजुद, अंडमलन और नकललबर द्वीप समूह के लेफुटनलंत गवरनर के कररलललल ने अगसुत 2014 में इनके लयल एक वैकलपकल आवलस नररमतल करने कल सुजुवलद यल थल, क्यलकल नलरकलंडम सलमरकल नलगरलनी और रडलर सुडेशन स्थलपतल करने के लयल एक महतुतुवपूरण स्थलन है ।
- कतुलु, परकृतल के संरकषण के लयल अंतररलषुदरररर संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) और खतरे की कगलर पर परगलतयल की ललल सुकूची में इसे लुपुतपरलल (Endangered) मलने वलने के करण रकषल मंतरललल ने इस मलमले कल आगे नलही बढलल यल ।
- वरतलनल में यलल पर एक पललसल कलकी के अलवल कलई नररररर कररर नलही हुआ है ।

## भलुगलकल स्थतल

- 7 वरग कलमी. के कषेतरफल वललल नलरकलंडम द्वीप उतुतरी अंडमलन द्वीप के पूरुव में अवस्थतल एक जुवलललमुखी द्वीप है ।
- यल एक घलषतल वनयजलव अलभयलरणय है जल म्यललमलर के कलकल द्वीप के नकलट अवस्थतल है, जलल चीन की सैनय उपस्थतल है ।
- वरतलनल में इस लुपुतपरलल पकषल पर एक वसलतुत अधुययन की यलगनल पर वकलर कयल वल रलहल है । वरष 2002 में कयल गए अधुययन में इनकी संखयल ललगभग 400 पलई गई थी ।

